



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन 1934 (श०)
(सं० पटना 214) पटना, वृहस्पतिवार, 7 मार्च 2013

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

4 जून 2012

सं० 1स्था०-25/2012-813/वि०सं—सभा सचिवालय के अवर सचिव श्री ताराचन्द रजक को श्री राजकिशोर रावत, उप-सचिव की दिनांक 31.08.2011 के अपराहन से सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हुए उप-सचिव के पद पर वेतनमान पी०बी०-3, 15600-39100 + 7600 (ग्रेड पे) में अनुमान्य विशेष वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण की तिथि से बिहार विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 1964 के नियम 4 (2) (ग) के द्वितीय परन्तुक में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छः माह या सेवानिवृत्ति की तिथि (जो पहले हो) तक के लिए प्रोन्नति द्वारा अस्थायी नियुक्ति की जाती है। सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1885, दिनांक 19.09.1997 के क्रम सं० 11 के तहत कालावधि की शर्त को विशेष परिस्थिति में शिथिल किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरeram मुखिया,
उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 214-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>